



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 1966/श्रावण 19, 1888

[No. 163] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 1966/SRAVANA 19, 1888

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August 1966

G.S.R. 1267.—In exercise of the powers conferred by clause 11 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby authorises:—

the Food Controller, Ahmedabad and

the Deputy Food Controller, Ahmedabad,

to exercise the powers conferred under the said clause within the Ahmedabad city and directs that the following amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. G.S.R. 921 dated the 10th June, 1966, namely:—

In the said notification, after item (ix) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1

(x) The Food Controller,
Ahmedabad and Deputy
Food Controller,
Ahmedabad

2

Ahmedabad city"

[No. 1-9/66-S Py.]

K. L. PASRICHA, Jt. Secy.

(585)

